

असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड हेतु नरिदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को यह सुनिश्चित करने का नरिदेश दिया कभिगले दो महीनों के भीतर 80 मिलियन प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को [राशन कार्ड](#) जारी किये जाएं।

मुख्य बदि:

- [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम 2013](#) के तहत, शीर्ष न्यायालय ने सरकारों को 80 मिलियन लोगों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया।
 - ये लोग [ई-श्रम पोर्टल](#) पर पंजीकृत हैं लेकिन उनके पास कार्ड नहीं हैं।
 - न्यायालय ने कहा कि NFSA लाभार्थियों के साथ ई-श्रम पंजीकरणकर्त्ताओं के मिलान की कवायद पहले ही शुरू की जा चुकी है और उस आधार पर यह पाया गया है कलिगभग 80 मिलियन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं।
 - इसलिये, वे अधनियम के तहत मासिक खाद्यान्न का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आगे नरिदेश दिया कि [NFSA की धारा 3](#) में परभाषित कोटे के बावजूद राशन कार्ड जारी किये जाने चाहिये।
 - [धारा 3](#): लक्षित [सार्वजनिक वितरण प्रणाली](#) के तहत पात्र परिवारों के व्यक्तियों को रधियती मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA), 2013

- यह खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
- [NFSA में 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी शामिल है:](#)
 - [अंत्योदय अन्न योजना](#): इसमें सबसे गरीब लोग शामिल हैं, जो प्रतमाह प्रतपरिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
 - [प्राथमिकता वाले परिवार \(PHH\)](#): PHH श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार प्रतव्यक्तिप्रतमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
- राशन कार्ड जारी करने के लिये परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उमर की सबसे बुजुर्ग महिला को परिवार का मुखिया होना अनवार्य है।
- इसके अलावा, अधनियम 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये विशेष प्रावधान रखता है, जो उन्हें [समेकित बाल विकास योजना](#) केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त में पौष्टिक भोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है, जैसे [आंगनवाड़ी केंद्र](#) के रूप में जाना जाता है।

ई-श्रम पोर्टल

- इसका लक्ष्य देश भर में 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों, जैसे- नरिमाण मज़दूरों, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना।
- इसके तहत श्रमिकों को एक 'ई-श्रम कार्ड' जारी कया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर शामिल होगा।
- यदकि कोई श्रमिक 'ई-श्रम' पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तोमृत्यु या स्थायी दवियांगता की स्थितिमें 2 लाख रुपए एवं आंशिक दवियांगता की स्थितिमें 1 लाख रुपए का पात्र होगा।